

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से.
भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 430]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2019—आषाढ़ 25, शक 1941

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-22/2019/18.—छ. ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, नगर पंचायत, गुण्डरदेही, जिला-बालोद (छ. ग.) के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्वारा अवधारित करता है :-

1. गुण्डरदेही, नगर पंचायत को 15 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करता है ।
2. यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जाएगा ।

अनुसूची

वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1	ठा.निहाल सिंह वार्ड
2	महात्मा गांधी वार्ड
3	भगत सिंह वार्ड
4	सुभाष चंद्र बोस वार्ड
5	मां चण्डी देवी वार्ड
6	सरदार पटेल वार्ड
7	राजीव-गांधी वार्ड
8	संत गुरु घासीदास वार्ड
9	बाबा सईयद अली वार्ड
10	डॉ.भीमराव अंबेडकर वार्ड
11	रानी लक्ष्मी बाई वार्ड
12	इंदिरा गांधी वार्ड
13	रानी दुर्गावती वार्ड
14	मिनीमाता वार्ड
15	ठा.अजयपाल सिंह वार्ड

गुण्डरदेही, नगर पंचायत के वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण

वार्ड क्रमांक 1 :- ठा.निहाल सिंह वार्ड

- उत्तर :- भजन सेठ घर से संतोष निषाद घर तक ।
 पूर्व :- संतोष निषाद घर से धनीराम निषाद घर तक ।
 दक्षिण :- धनीराम निषाद घर से नर्सरी तक ।
 पश्चिम :- नर्सरी से भजन सेठ घर तक ।

वार्ड क्रमांक 2 :- महात्मा गांधी वार्ड

- उत्तर :- नर्सरी से राजकुमार निषाद घर तक ।
 पूर्व :- राजकुमार निषाद घर से बीरबल निषाद घर तक ।
 दक्षिण :- बीरबल निषाद घर से रंजना बाई निषाद घर तक ।
 पश्चिम :- रंजना निषाद घर से नर्सरी तक ।

वार्ड क्रमांक 3 :- भगत सिंह वार्ड

- उत्तर :- मीना बाई सोनकर घर से पुनीत राम घर तक ।
 पूर्व :- पुनीत राम घर से मनहरण ढीमर घर तक ।
 दक्षिण :- मनहरण ढीमर घर से बलीराम ठाकुर घर तक ।
 पश्चिम :- बलीराम ठाकुर घर से मीना बाई सोनकर घर तक ।

वार्ड क्रमांक 04 :- सुभाष चंद्र बोस वार्ड

- उत्तर :- भीखू निषाद घर से धनेश सिन्हा घर तक ।
 पूर्व :- धनेश घर से लक्ष्मीचंद यादव घर तक ।
 दक्षिण :- लक्ष्मीचंद यादव घर से शंकर घर तक ।
 पश्चिम :- शंकर घर से भीखू निषाद घर तक ।

वार्ड क्रमांक 05 :- मां चण्डी देवी वार्ड

- उत्तर :- मोतीलाल घर से चण्डी मंदिर तक ।
 पूर्व :- चण्डी मंदिर से संतोष घर तक ।
 दक्षिण :- संतोष घर से मंगलबती घर तक ।
 पश्चिम :- मंगलबती घर से मोतीलाल सोनकर घर तक ।

वार्ड क्रमांक 06 :- सरदार पटेल वार्ड

- उत्तर :- मुन्ना यादव घर से पेंशनर भवन तक ।
 पूर्व :- पेंशनर भवन से भागीरथी घर तक ।
 दक्षिण :- भागीरथी घर से अन्नपूर्णा सोनकर घर तक ।
 पश्चिम :- अन्नपूर्णा सोनकर घर से मुन्ना यादव घर तक ।

वार्ड क्रमांक 07 :- राजीव गांधी वार्ड

- उत्तर :- विजय सोनकर घर से भूखन सोनकर घर तक ।
 पूर्व :- भूखन सोनकर घर से कन्हैया सोनकर घर तक ।
 दक्षिण :- कन्हैया सोनकर घर से जीवन सोनकर घर तक ।
 पश्चिम :- जीवन सोनकर घर से विजय सोनकर घर तक ।

वार्ड क्रमांक 08 :- संत गुरु घासीदास वार्ड

- उत्तर :- नंदकिशोर शर्मा घर से शेख हुसैन घर तक ।
 पूर्व :- शेख हुसैन घर से बल्लू सोनकर घर तक ।
 दक्षिण :- बल्लू सोनकर घर से चैतराम सोनकर घर तक ।
 पश्चिम :- चैतराम सोनकर घर से नंदकिशोर घर तक ।

वार्ड क्रमांक 09 :- बाबा सईयद अली वार्ड

उत्तर :- इचरज जैन घर से कन्हैया निर्मलकर घर तक ।

पूर्व :- कन्हैया निर्मलकर घर से राजकपूर घर तक ।

दक्षिण :- राजकपूर घर से कमलकिशोर घर तक ।

पश्चिम :- कमलकिशोर घर से इचरज जैन घर तक ।

वार्ड क्रमांक 10 :- डॉ.भीमराव अंबेडकर वार्ड

उत्तर :- नोहर ढीमर घर से केवल देवांगन घर तक ।

पूर्व :- केवल देवांगन घर से नूरमोहम्मद घर तक ।

दक्षिण :- नूरमोहम्मद घर से बिशाखा सोनी घर तक ।

पश्चिम :- बिशाखा सोनी घर से नोहर ढीमर घर तक ।

वार्ड क्रमांक 11 :- रानी लक्ष्मी बाई वार्ड

उत्तर :- खेदू राम ढीमर घर से श्यामसुंदर खण्डेलवाल घर तक ।

पूर्व :- श्यामसुंदर खण्डेलवाल घर से सोहेला यादव घर तक ।

दक्षिण :- सोहेला यादव घर से नटवर घर तक ।

पश्चिम :- नटवर घर से खेदू राम ढीमर घर तक ।

वार्ड क्रमांक 12 :- इंदिरा गांधी वार्ड

उत्तर :- कन्या शाला से अशोक वस्त्रालय तक ।

पूर्व :- अशोक वस्त्रालय से रमेश अग्रवाल घर तक ।

दक्षिण :- रमेश अग्रवाल घर से रामचरण निषाद घर तक ।

पश्चिम :- रामचरण निषाद घर से कन्या शाला तक ।

वार्ड क्रमांक 13 :- रानी दुर्गावती वार्ड

उत्तर :- अकीला बानो घर से मदन लाल शर्मा घर तक ।

पूर्व :- मदन लाल शर्मा घर से रामनारायण सिन्हा घर तक ।

दक्षिण :- रामनारायण सिन्हा घर से दयाराम चावड़ा घर तक ।

पश्चिम :- दयाराम चावड़ा घर से अकीला बानो घर तक ।

वार्ड क्रमांक 14 :- मिनीमाता वार्ड

उत्तर :- उमा देवी साहू घर से सेवक महिपाल घर तक।

पूर्व :- सेवक महिपाल घर से चिरंजीव गायकवाड़ घर तक।

दक्षिण :- चिरंजीव गायकवाड़ घर से शेख नबी काम्प्लेक्स तक।

पश्चिम :- शेख नबी काम्प्लेक्स से उमादेवी साहू घर तक।

वार्ड क्रमांक 15 :- ठा.अजयपाल सिंह वार्ड

उत्तर :- ठा.अशोकराय घर से गैदसिंह विश्वकर्मा घर तक।

पूर्व :- गैदसिंह विश्वकर्मा घर से तोरण यादव घर तक।

दक्षिण :- तोरण यादव घर से शास्त्री टंडन घर तक।

पश्चिम :- शास्त्री टंडन घर से ठा. अशोक राय घर तक।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई, 2019

क्रमांक-एफ 1-22/2019/18 :- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक : एफ 1-22/2019/18 दिनांक 12.07.2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar dated 12 July, 2019

NOTIFICATION

No. F 1-22/2019/18.- In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 29 of the chhattisgarh municipalities act 1961 (No.37 of 1961) the State Government hereby determine the extent of wards of Nagar Panchayat Gunderdehi, Distt. Balod as per shedule given Below :-

1. Divides Nagar Panchayat Gunderdehi into 15 wards and described the limits of each ward as shown in schedule.
2. Notified that one councilor shall be elected from each such ward.

SCHEDULE

S.No.of ward	Name of the ward
1	Th. Nihal Singh Ward
2	Mahatma Gandhi Ward
3	Bhagat Singh Ward
4	Subhash Chandra Bose Ward
5	Maa Chandi Devi ward
6	Sardar Patel Ward
7	Rajeev Gandhi Ward
8	Sant Guru Ghasi Das Ward
9	Baba Saiyad Ali ward
10	Dr.Bhimrao Ambedkar ward
11	Rani Laxmi Bai ward
12	Indira Gandhi Ward
13	Rani Durgawati ward
14	Mini Mata Ward
15	Thakur Ajaypal Singh ward

Descriptions of the Boundries of ward of Nagar Panchayat Doundi

Ward No 01 Th- Nihal Singh ward

- NORTH - Bhajan Seth house To Santosh Nishad house.
 EAST - Santosh Nishad house To Dhaniram Nishad house.
 SOUTH - Dhaniram Nishad house to nursery .
 WEST - Nursery To bhajan Seth house.

Ward No 02 Mahatma Gandhi ward

- NORTH - Nursery To Rajkumar nishad house.
 EAST - Rajkumar nishad house To Birbal Nishad house.
 SOUTH - Birbal Nishad house To Ranjna Bai Nishad house.
 WEST - Ranjna Bai Nishad house To Nursery.

Ward No 03 Bhagat Singh Ward

- NORTH - Mina Bai Sonkar house To Punit Ram house.
 EAST - Punit Ram House To manharan Dhimar house
 SOUTH - Manharan Dhimar house To baliram Thakur House.
 WEST - Baliram House To Mina bai Sonkar House.

WARD NO. 04 – Subhash Chandra Bose WARD

- North - Bhikhu Nishad house To Dhanesh Sinha House.
 East - Dhanesh Sinha House To Laxmichand Yadav House
 South - laxmichand Yadav House To Shankar House.
 West - Shankar House To Bhikhu Nishad House.

WARD NO. 05 – Maa Chandi Devi WARD

- North - Motilal House To Chandimandir .
 East - Chandimandir To Santosh House .
 South - Santosh House To Mangalbat House
 West - Mangalbat house To Motilal Sonkar House .

WARD NO. 06 - Sardar Patel WARD

- North - Munna Yadav House To pensioner Bhavan
 East - Pensionar Bhavan to Bhagirathi House
 South - Bhagirathi House To Annpurna Sonkar House
 West - Annpurna Sonkar House To Munna Yadav House

Ward No 07 - Rajeev Gandhi ward

- NORTH- Vijay Sonkar House To Bhukhan Sonkar House.
 EAST- Bhukhan Sonkar House To Kanhaiya Sonkar house.
 SOUTH- Kanhaiya Sonkar House To jeevan Sonkar House.
 WEST- Jeevan Sonkar House To Vijay Sonkar House.

Ward No 08 - Sant Guru Ghasidas Ward

- NORTH- Nandkishor Sharma House To Sheikh Hussain House.
 EAST- Seikh Hussain House To ballu Sonkar House .
 SOUTH- Ballu Sonkar House To Chaitram Sonkar house.
 WEST- Chaitram Sonkar House To nandkishor House.

Ward No 09 - Baba Saiyad Ali ward

- NORTH- Ichraj Jain House To Kanhaiya Nirmalkar House.
 EAST - Kanhaiya Nirmalkar House To Rajkapur House.
 SOUTH - Rajkapur House To Kamalkishor House.
 WEST Kamalkishor House To Ichraj jain House.

Ward No 10 - Dr. Bhimrao Ambedkar Ward

- NORTH - Nohar Dhimar House To Kewal Dewangan House.
 EAST - Kewal Dewangan House To Nurmohammad House .
 SOUTH - Nur Mohamamad House To Bishakha Soni House .
 WEST - Bishakha Soni House To Nohar Dhimar House.

Ward No 11 Rani Laxmi bai Ward

- NORTH - kheduram Dhimar House To Shyamsundar Khandelwal house .
 EAST - Shyamsundar Khandelwal house To Sohela Yadav House
 SOUTH - Sohela Yadav House To Natwar House .
 WEST - Natwar House To Kheduram Dhimar House.

Ward No 12 Indira Gandhi Ward

- NORTH - Kanya Shala To Ashok Vastralay.
 EAST - Ashok Vastralay To Ramesh Agrawal house.
 SOUTH - Ramesh Agrawal house To Ramcharan Nishad House
 WEST Ramcharan Nishad House To Kanya Shala.

WARD 13 Rani Durgawati Ward

- NORTH - Akila Bano House To Madan Lal Sharma House.
EAST - Madan Lal Sharma House To Ramnarayan Sinha House.
SOUTH - Ramnarayan Sinha house To Dayaram Chawda House.
WEST - Dayaram Chawda To Akila Bano House.

WARD 14 Minimata ward

- NORTH - Umadevi Sahu House To Sewak Mahipal House.
EAST - Sewak Mahipal House To Chiranjiv Gayakwad House.
SOUTH - Chiranjiv Gayakwal House To Seikh Nabi Complex.
WEST - Seikh Nabi Complex To Umadevi Sahu House.

WARD 15 Thakur Ajaypal Singh ward

- NORTH - Th- Ashok Rai House To Gaiind Singh Vishwakarma House.
EAST - Gaiind Singh Vishwakarma House To Toran Yadav House.
SOUTH - Toran Yadav House To Shastri Tandon House.
WEST - Shastri Tandon House To Thakur Ashok Rai House

By order & In the name of Governor of Chhattisgarh,
R.EKKA, Deputy Secretary. ✓